

Ref. No.: AUSFB/SEC/2025-26/42

Date: April 23, 2025

To,

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>National Stock Exchange of India Ltd.</b><br>Exchange Plaza, C-1, Block G,<br>Bandra Kurla Complex,<br>Bandra (East), Mumbai 400051,<br>Maharashtra.<br>NSE Symbol: AUBANK | <b>BSE Limited</b><br>Phiroze Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street,<br>Mumbai 400001,<br>Maharashtra.<br>Scrip Code: 540611, 958400, 959025, 974093,<br>974094, 974095, 974914, 974963, 975017, 975038 &<br>976580 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dear Sir/Madam,

**Sub: Intimation of Newspaper Advertisement of Audited Financial Results of the Bank for the Quarter and Year ended on March 31, 2025**

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Audited Financial Results of the Bank for the Quarter and Year ended on March 31, 2025 has been published in all the editions of "**Financial Express**" in English Newspaper and in Jaipur edition of "**Nafa Nuksan**" in Hindi Newspaper on April 23, 2025. The copies of the newspaper advertisements are enclosed for reference.

The above may also be accessed on the website of the Bank at the link- Stock Exchange Disclosures - AU Small Finance Bank.

This is for your information and records.

Thanking You,


Yours faithfully,

**For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED**

  
**Manmohan Parmami**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
Membership No.: F9999  
[investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in)



Encl: As Above



1800 1200 1200

Follow us on  /aubankindia

### Registered Office

**AU SMALL FINANCE BANK LIMITED**  
 19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,  
 Jaipur- 302001, Rajasthan, India  
 Phone: +91 141 4110060/61, Fax: +91 141 4110090  
 CIN: L36911RJ1996PLC011381

नफा नुकसान

ऑटोमोबाइल

पोस्टल रजि. नं. जयपुर सिटी/005/2025-27

जयपुर  
बुधवार 23 अप्रैल, 2025

8


**30** Years of  
**Scale with Sustainability**

  
**2,456**  
Touchpoints

  
**25**  
21 States & 4 UT's

  
**50,900+**  
Employees

**AA+/Stable CRISIL RATING**  
For Fixed Deposits



**एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड**

(CIN: L36911RJ1996PLC011381)

पंजीकृत कार्यालय:- 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान (इंडिया)

फोन: +91-141-4110060, फेक्स: +91-141-4110090, वेबसाइट: www.aubank.in

**मार्च 31, 2025 को समाप्त हुई तिमाही एवं वार्षिक के लिए अंकेषित वित्तीय परिणामों का विवरण**

(₹ लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                                   | तिमाही समाप्त<br>मार्च 31, 2025<br>(नोट iii देखें) | तिमाही समाप्त<br>मार्च 31, 2024<br>(नोट iii देखें) | वार्षिक समाप्त<br>मार्च 31, 2025<br>(अंकेषित) | वार्षिक समाप्त<br>मार्च 31, 2024<br>(अंकेषित) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | परिचालनों से कुल आय                                                                                                     | 5,03,126.71                                        | 3,37,051.07                                        | 18,59,004.20                                  | 12,25,185.51                                  |
| 2        | अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर,अपवाद तथा असाधारण मदों से पूर्व)                                                                | 65,714.91                                          | 53,164.22                                          | 2,78,805.41                                   | 2,07,623.05                                   |
| 3        | अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर से पूर्व (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)                                                         | 65,714.91                                          | 45,484.08                                          | 2,78,805.41                                   | 1,99,942.91                                   |
| 4        | अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर पश्चात (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)                                                           | 50,369.86                                          | 37,073.99                                          | 2,10,592.66                                   | 1,53,471.90                                   |
| 5        | अवधि हेतु कुल व्यापक आय {अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आयों को सम्मिलित करके (कर पश्चात)}         | नोट (ii) देखें                                     | नोट (ii) देखें                                     | नोट (ii) देखें                                | नोट (ii) देखें                                |
| 6        | समतता अंश पूंजी                                                                                                         | 74,453.05                                          | 66,916.25                                          | 74,453.05                                     | 66,916.25                                     |
| 7        | संचय (पुनर्मुल्यन संचय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है                            | 16,42,175.12*                                      | 11,89,036.90**                                     | 16,42,175.12*                                 | 11,89,036.90**                                |
| 8        | प्रतिभूति प्रीमियम खाता                                                                                                 | 5,33,003.70                                        | 3,89,878.48                                        | 5,33,003.70                                   | 3,89,878.48                                   |
| 9        | शुद्ध संपत्ति (नोट iv देखें)                                                                                            | 16,93,032.28                                       | 12,55,953.15                                       | 16,93,032.28                                  | 12,55,953.15                                  |
| 10       | वकाया ऋण                                                                                                                | 11,65,990.24                                       | 5,47,937.21                                        | 11,65,990.24                                  | 5,47,937.21                                   |
| 11       | वकाया प्रतिदेय अधिमान शेयर                                                                                              | -                                                  | -                                                  | -                                             | -                                             |
| 12       | ऋण इक्विटी अनुपात (नोट iv देखें)                                                                                        | 0.33                                               | 0.27                                               | 0.33                                          | 0.27                                          |
| 13       | प्रति शेयर अर्जन (₹ 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) -<br>{(असाधारण मदों से पहले तथा बाद) (गेट वार्षिक)} |                                                    |                                                    |                                               |                                               |
|          | 1. मूल (असाधारण मदों बाद) :                                                                                             | 6.77                                               | 5.54                                               | 28.32                                         | 22.98                                         |
|          | 2. तटल (असाधारण मदों बाद) :                                                                                             | 6.75                                               | 5.52                                               | 28.24                                         | 22.86                                         |
|          | 3. मूल (असाधारण मदों से पहले):                                                                                          | 6.77                                               | 6.40                                               | 28.32                                         | 23.84                                         |
|          | 4. तटल ((असाधारण मदों से पहले) :                                                                                        | 6.75                                               | 6.37                                               | 28.24                                         | 23.71                                         |
| 14       | पूंजी प्रतिदान रिजर्व                                                                                                   | -                                                  | -                                                  | -                                             | -                                             |
| 15       | ऋण-पत्र प्रतिदान रिजर्व                                                                                                 | -                                                  | -                                                  | -                                             | -                                             |

नोट्स -

\* मार्च 31, 2025 को \*\* मार्च 31, 2024 को

(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 और 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किये गये तिमाही एवं वार्षिक के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है। तिमाही एवं वार्षिक के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com एवं बैंक की वेबसाइट www.aubank.in पर उपलब्ध है। इसे नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

(ii) कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, क्योंकि Ind AS अभी तक बैंक पर लागू नहीं हुआ है।

(iii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2025 को समाप्त वार्षिक के अंकेषित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नैमासिक के अनअंकेषित आंकड़ों के बीच का अंतर है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2024 को समाप्त वार्षिक के अंकेषित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नैमासिक के अनअंकेषित आंकड़ों के बीच का अंतर है।

(iv) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अनुसार अनुपातों की गणना के लिए कार्यप्रणाली वर्तमान अवधि इस प्रकार है:



|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ऋण इक्विटी अनुपात | उधार / पूंजी के योग और रिजर्व और अधिशेष के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है |
| शुद्ध संपत्ति     | शुद्ध संपत्ति पूंजी, रिजर्व और अधिशेष के योग का प्रतिनिधित्व करता है।     |

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के लिए  
संजय अग्रवाल  
फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सी ई ओ

दिनांक : 22 अप्रैल, 2025

1800 1200 1200

Follow us on    /aubankindia

**Registered Office**

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,

Jaipur- 302001, Rajasthan, India

Phone: +91 141 4110060/61, Fax: +91 141 4110090

CIN: L36911RJ1996PLC011381

www.aubank.in